

CORPORATE OFFICE :
1st floor, 137 Hubtown Solaris,
N.S. Phadke Road, Opp. Teli Gali,
Near Andheri East West Flyover Bridge.
Andheri East. Mumbai - 400069 (INDIA).
CIN No. L24232MP1989PLC005390
Tel. : 91-22-6863 4200 / 6863 4206
Fax : (91) 022-2206 3929
E-mail : poltd@panchsheelorganics.in
Website : <http://www.panchsheelorganics.com>



**Panchsheel
Organics
Limited**

**MFGRS. OF: BULK DRUGS
& FORMULATIONS**

July 08, 2022

BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400 001.

Dear Sirs,

Scrip Code: 531726

Sub: Newspaper Publication - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement of the corrigendum to Notice of the Extra-ordinary General Meeting of the Company to be held on Wednesday, July 27, 2022, published today, i.e. July 8, 2022 in "Business Standard" newspaper in Hindi and English language.

The aforesaid newspaper clippings are also available on website of the Company, www.panchsheelorganics.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Panchsheel Organics Limited

Mahendra A. Turakhia
Managing Director
DIN: 00006222



Encl.: as above.

Muted June qtr may cap upside in Marico stock

Volumes for consumer major's India business below estimates

RAM PRASAD SAHU
Mumbai, 7 July

The stock of consumer major Marico has been a major underperformer in June, registering a fall of 18 per cent. While its peer index, the S&P BSE Fast Moving Consumer Goods, was down about 3 per cent, the BSE 100 was down 6 per cent over the same period. Near-term margin worries, increased competitive pressures, and higher valuations have weighed on the stock.

While the stock has recovered somewhat this month, the underperformance for the owner of Parachute and Saffola brands could persist since the June quarter operational performance for the India market was below expectations.

There was a mid-single digit (about 5 per cent) decline in volumes for the Indian market on a high base of 21 per cent growth. From a high of 25 per cent in the fourth quarter of 2020-21, volume growth has been on the decline over the past six quarters, with the December and March quarters registering flat showing.

The food segment also had a tepid quarter on account of a higher base, triggered by in-home consumption of oats and a sharp decline in immunity-related categories due to the waning impact of Covid.


Abhijeet Kundu, vice-president (research), Antique Stock Broking, says on a three-year annual growth basis, Marico's India volume growth of 2 per cent appears below peer performance. The India decline was led by a double-digit fall in Saffola oils and marginal drop in Parachute coconut oil category. The company highlighted that the decline was due to high in-home use in the base quarter and significant downtrading visible from super premium to mass segment in edible oils.

The brand, according to a pre-quarterly update, chose to maintain threshold margins over volumes in the face of unprecedented raw material inflation, supply-chain issues, and the undesirable effect of price hikes on the absolute outlay for the consumer. Excluding Saffola oils, the India business volumes were marginally higher.

The segments that did well were premium personal care and international operations. While the premium segment did better, given the lower impact on the



VOLUME PRESSURES



upper-income consumers and a lower base, all global markets delivered growth in the high teens on a constant currency basis. Despite strong international business performance, the overall revenue growth for the quarter was flat.

On the operating front, the company is expected to benefit from lower prices of key raw material — copra. It should also get the benefit of lower edible and crude oil prices, although this will be offset by a higher cost inventory. While gross margins could expand year-on-year, they will remain at similar levels as the March quarter due to a higher inventory cost. Operating profit growth is expected to be in high single digits, dragged down by lower revenue. Although the food business and digital-first are doing well, one area the Street will monitor is increased competition in its core categories, as well as newer segments.

Says Abneesh Roy, executive vice-president, institutional equities, Edelweiss Securities, "Rising competitive intensity

from Dabur in hair oils, and from Adani Wilmar and Emami in healthy edible oils, and a high base are the key near-term challenges for Marico."

There could be downward revision in earnings, given that the effective tax rate would rise 250-300 basis points in 2022-23. A higher tax outgo is due to expired tax benefits at one of its manufacturing units.

While falling raw material prices will support margins, the Street will keep an eye on the pace of rural recovery and volume/revenue growth in India business. At the current price, the stock is trading at about 40x its 2023-24 earnings estimates. Motilal Oswal Research, however, believes that the diversification into other categories could lead to higher multiples. Analysts believe valuations are inexpensive, given the potential of a strong earnings growth and healthy return on equity of over 30 per cent. Investors should await consumption and volume growth trends before considering the stock.

Make the most of higher tax deductions to senior citizens

Those over 60 need not file ITR if any tax has been deducted under Section 194P

BINDISHA SARANG

The last date for filing income-tax return (ITR) is July 31, 2022, so taxpayers should begin gathering the relevant documents and familiarising themselves with tax-filing rules. Senior citizens, in particular, are one set of taxpayers to whom a different set of rules apply.

Suresh Surana, founder, RSM India says, "A resident individual aged 60 years or above, who has not attained 80 years of age during the previous year, is considered a senior citizen for income-tax purposes. A resident individual aged 80 years or above is considered a super senior citizen."

Select the right forms

Senior citizens can use ITR-1 to ITR-4 to file their returns, depending on the nature of their income. Ankit Jain, partner, Ved Jain and Associates says, "The forms automatically calculate the age based on the date of birth entered in them and apply the relevant slab rates to calculate the tax liability."

Deepak Jain, chief executive, TaxManager.in adds that senior and super senior citizens may also need to fill a few other forms, such as 12BBA and 15H. The latter can help them avoid tax deduction at source (TDS).

Exemption from filing ITR

If a senior citizen's tax has been deducted under Section 194P, he or she is exempted from filing ITR. However, he/she needs to fulfil a few pre-conditions to avail of this exemption. Manee Pal Singh, partner, I.P. Pasricha and Co says, "The senior citizen should be of age 75 years or above, should have been a resident in the previous year, and must have only pension income and interest income. Moreover, the interest income earned should be from the same specified

TAX RATES APPLICABLE TO SENIOR CITIZENS

Income slabs (₹)	Existing regime tax rates		New regime tax rates
	senior citizen	super senior citizen	
Basic exemption limit (BEL)	No tax up to ₹3 lakh	No tax up to ₹5 lakh	Nil
BEL: 5 lakh	5.2% (tax rate 5% + cess 4%) (Tax rebate u/Sec 87A is available)	NA	5.2% (tax rate 5% + cess 4%)
>5 lakh – 7.5 lakh	20.8% (tax rate 20% + cess 4%)	20.8% (tax rate 20% + cess 4%)	10.4% (tax rate 10% + cess 4%)
> 7.5 lakh – 10 lakh	20% + cess 4%	20% + cess 4%	15.6% (tax rate 15% + cess 4%)
>10 lakh – 12.5 lakh			20.8% (tax rate 20% + cess 4%)
> 12.5 lakh – 15 lakh	31.2% (tax rate 30% + cess 4%)	31.2% (tax rate 30% + cess 4%)	26% (tax rate 25% + cess 4%)
> 15 lakh			31.2% (tax rate 30% + cess 4%)

The above-mentioned are effective tax rates which will get further enhanced by the applicable surcharge if the total income exceeds ₹50 lakh

Source: RSM India

bank in which the pension is received." To take advantage of Section 194P, however, senior citizens who fulfil the criteria, should file Form 12BBA with a designated bank.

No deadline has been prescribed for filing this form, but it should ideally be physically submitted to the bank at the beginning of the financial year to avoid inconvenience. Jain says, "The central bank provides a list of specified banks that handle tax deductions and rebates for senior citizens." Naveen Wadhwa, deputy manager, Taxmann says, "By opting for Section 194P, senior citizens who meet the pre-conditions can avoid paying a fine of up to ₹5,000 for missing the ITR filing deadline."

Avail of relevant tax deductions

Senior citizens can also claim deductions on tax-saving investments. Suvigya Awasthy, associate partner, PSL Advocates & Solicitors says, "If a senior citizen has invested in the Senior Citizen Savings Scheme and other relevant tax-saving products, he/she can avail of deduction under Section 80C.

Section 80D deduction is also available on payments made towards health insurance premiums and pre-

ventive health check-ups." The maximum deduction available on premium paid for senior citizens is ₹50,000.

Section 80DDB pertains to medical expenditure. If the individual on whose behalf such expenses are incurred is a senior citizen, the individual can claim a deduction of up to ₹1 lakh. Awasthy says, "This deduction is available for all senior citizens and super senior citizens." Senior citizens are also entitled to a higher deduction on interest income. Surana adds, "Section 80TTB provides a deduction on interest income earned by resident senior citizens' deposits in a bank account. The maximum deduction available is up to ₹50,000."

Don't forget to claim rebate

All residents (including senior citizens) whose total income during the previous year did not exceed ₹5 lakh are eligible for a rebate under Section 87A to the extent of ₹12,500. Wadhwa says, "However, the rebate is not available to resident super senior citizens as no tax is levied on their income of up to ₹5 lakh."

Finally, senior citizens who have no business or professional income are exempt from paying advance tax. Jain adds, "But that exemption is only available till the filing of tax return, so they should ensure that the tax return is filed on time to avoid interest or penalty."

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट शाजापुर (मध्य प्रदेश)

क्रमांक/रीख-2/2022/572 शाजापुर, दिनांक 02/07/2022
प्रकरण क्रमांक - /बी-121/

--: विज्ञापित :-

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आर्थिकों व सूची शखा 05 यंशवत निवास रोड इन्दौर

----- आवेदक ----- आवेदक

विरुद्ध

01. मेसर्स अग्रवाल फुड्स इन्ड. (इंडिया) एलएलपी (ऋणी) लर्क पाठर्स श्री पंकज कुमार अग्रवाल पिता मदनमोहन अग्रवाल एवं श्रीमती साधना अग्रवाल पति श्री पंकज कुमार अग्रवाल पता 248 ए स्टार्ट्स 4 स्क्रीम नंबर 78 विजय नगर इन्दौर एअन्ड

----- आवेदक ----- आवेदकगण

आवेदक पक्ष द्वारा वित्त आस्तिधायक एवं पुनर्गठन और प्रभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत आवेदक पक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक पक्ष को अनावेदक बैंक ने बंधक स्वी संघि पर ऋण प्रदान किया गया किन्तु आवेदक पक्ष द्वारा ऋण राशि अदान नहीं करने व व्यतिवृत्त होने के कारण बंधक सम्पत्ति का मौखिक अधिव्यव दिलाया जावे।

अनावेदक पक्ष को पक्ष समर्थन हेतु उपलब्ध पते पर सूचना पर जारी किये गये किन्तु सूचना पर व्यक्तिगत: तामील नहीं हुये है। अतः इस सूचना पर के माध्यम से उपरोक्त अनावेदक को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में नियत दिनांक 12.07.2022 को दोपहर 02:00 बजे न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा नियम विधि परचत प्रस्तुत आवेदन/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतः यह विज्ञापित आज दिनांक 02.07.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

जिला दण्डाधिकारी
जिला शाजापुर (म.प्र.)

HIL LIMITED (A BIRLA GROUP COMPANY)

CIN: L74999TG1955PLC000656
Regd. Off: office No 1 & 2, 7 Floor, SLN Terminus, Survey no 133, Near Botanical Gardens, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana
Tel: 040-68249219; Website: www.hil.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 75th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, July 29, 2022 at 3.00 PM (IST) through video conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) as per the guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") in view of ongoing pandemic situation. The copy of the Annual Report including the Notice convening the AGM is sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company / Depositories on July 7, 2022.

In compliance with the above said circulars, Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations 2015:

- The 75th AGM will be conducted through Video Conferencing or Other Audio Visual Mode (OAVM).
- Company is pleased to provide its Shareholders with facility of "remote e-voting" (e-voting from a place other than venue of the AGM) and E-Voting (e-voting on the date of AGM), through National Securities Depository Limited (NSDL), to enable them to cast their votes for the resolution proposed to be transacted at the 75th AGM. (<https://www.evoting.nsdl.com/>)
- Company is pleased to provide its shareholders with facility to attend the AGM through Video Conferencing or Other Audio Visual Means through National Securities Depository Limited (NSDL) for attending AGM (<https://www.evoting.nsdl.com/>)
- Company has appointed Mr. Mohit Gurjar of M/s. PS Rao & Associates, Practicing Company Secretaries (CP No: 18644), as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process (Remote e-voting and e-voting on AGM day) The details as per the requirement of the Rules are given hereunder:

Sl. No.	Particulars	Event Dates
1	Date of completion of sending Notice through E-mail	July 07, 2022
2	Link for Annual Report Download	https://hil.in/wp-content/uploads/2022/07/Annual-Report-2021-22.pdf
3	Cut Off Date (A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, shall be entitled to avail the facility of e-voting and attend AGM through Video Conferencing or OAVM)	Friday, July 22, 2022
4	Books Closure Dates	Saturday, July 23, 2022 to Friday, July 29, 2022 (both days inclusive)
5	The remote e-voting period will commence on	Monday, July 25, 2022 (9:00 A.M.) IST
6	The remote e-voting period will end on	Thursday, July 28, 2022 (5:00 P.M.) IST

* Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after completion of sending Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members or Register of beneficial holders as on cut-off date i.e. July 22, 2022 can view the Notice of the 75th AGM on the Company's website i.e. <https://hil.in/wp-content/uploads/2022/07/75th-AGM-Notice.pdf> or on the website of NSDL. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM.

- The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- The Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote on the day of Meeting through e-voting on day of AGM
- The Notice of the Annual General Meeting including the procedure of e-voting have been sent to all Members and is also available on the Company's website at <https://hil.in/wp-content/uploads/2022/07/75th-AGM-Notice.pdf> and also on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and also available for inspection at the registered office of the Company during office hours on working days, except Saturday.
- Members may contact the following for any queries or issues

Members to temporarily update e-mail address and Members who e-mail id are not updated, are requested to update the same by contacting RTA.

Registrar & Share Transfer Agent i.e. info@vccipl.com by writing an email either to the R & TA at info@vccipl.com or to the Company at cs@hil.in or Kishore.kathri@hil.in mentioning the following details:
Name as registered with the R&TA/Depository, Address, Email, Copy of PAN, DPID/Client ID or Folio Number, Number of shares held.

Company Secretary & Head Legal: Mr. Mahesh Thakar, Company Secretary & Head Legal, SLN Terminus, Office no.1 & 2, 7th Floor, Survey No. 133, Near Botanical Gardens, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana cs@hil.in, 040-68249219

Registrar & Share Transfer Agent: M/s. Venture Capital and Corporate Investments Private Limited, 12-10-167, Bharat Nagar, Hyderabad - 500018 Tel: 91-40-23818475 / 476, Fax: 91-40-23868024 Email: info@vccipl.com

For HIL Limited
Mahesh Thakar
(Company Secretary & Head Legal)

Place: Hyderabad
Date: 07.07.2022

PANCHSHEEL ORGANICS LIMITED

CIN: L24232MP1989PLC005390
Regd. Office : B-6 & B-7 Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, (M.P.) -452015
Ph.: 0731-2721709, Fax: 91-22063929, Website : www.panchsheelorganics.com

CORRIGENDUM TO EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING NOTICE

Panchsheel Organics Limited had issued Notice dated June 29, 2022 for convening the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company through Video Conferencing/ OAVM means. The Notice has already been circulated to all the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made there under. Shareholders are requested to note the following changes to Notice.

On page 6:- Sr. No. 64 be read as Ms. Bidhya Devi Mandawala instead of Rahul Mandawewala.

We hereby inform that Mr. Rahul Mandawewala, one of proposed allottee having pre-holding of 120 Shares has sold his shares after 29th June, 2022 and company proposes to add Ms. Bidhya Devi Mandawala wife of proposed allottee instead of Mr. Rahul Mandawewala.

We hereby undertake and confirm that Ms. Bidhya Devi Mandawala does not have any pre preferential holding of shares of the Company.

The following are the details of Bidhya Devi Mandawala :-

SR. NO.	NAME OF INVESTOR	CATEGORY (PROMOTER/ NON-PROMOTER)	PREFERENTIAL ISSUE (EQUITY SHARES)	POST HOLDING SHARES	% OF POST HOLDING
1.	Bidhya Devi Mandawala	Non Promoter	10,000	10,000	0.0757

On page 38:- In explanatory statement of Item 2 website of the Company be read as www.panchsheelorganics.com.

In Explanatory Statement of Item 1 and 2 Point Q (a) on page 32 and 38 the following is added "Every Director and Promoter of the Company has individually given an undertaking declaring that none of them is declared as willful defaulter or fraudulent borrower as defined under the SEBI ICDR Regulations."

On page 36: Ultimate Beneficial Owner of India Equity Fund 1 is Ms. Shikha Bagal.

On page 37: In Sr. No. 16 - % Post Holding of Gothamchand A HUF be read as 0.3485% instead of 0.7578%.

In Explanatory Statement of Item 1 and 2 Point P, on page 31 and 38:- **Certificate from Statutory Auditor and Practising Company Secretary:** The Company will obtain a certificate issued from Statutory Auditor and Practising Company Secretary certifying that the Preferential Issue is being made in accordance with the requirements contained in the ICDR Regulations.

The corrigendum will be available on the website of the Company besides being communicated to BSE limited where the shares of the Company are Listed.

For : Panchsheel Organics Limited
Sd/- Mahendra A. Turakhia
Managing Director
DIN : 00006222

Place : Indore
Date : July 07, 2022

TENDER CARE

PETRONET LNG LIMITED (PLL) ACHIEVES A MILESTONE BY RECEIVING 3000TH LNG SHIP "RAAHI" AT ITS DAHEJ LNG TERMINAL

Petronet LNG Limited (PLL) has achieved a major milestone by receiving 3000th LNG shipment at its Dahej LNG Terminal in Gujarat on 7th July 2022. Embarking upon its journey in Jan 2004, the Terminal received its 100th LNG shipment in Dec 2005, 1000th LNG shipment in February 2013, and 2000th LNG shipment in June 2018, followed by 3000th shipment on 7th July 2022. While it took about 9 years to receive the 1st 1000 Ship, about 5 years to receive next 1000 ship, it has taken only about 4 years to reach to the level of 3000. Currently, this terminal handles a combined number of about 260-270 shipments in a year at its two jetties.

Dahej Terminal is the 8th Largest LNG import terminal in the world with nameplate capacity of 17.5 MMTPA. In terms of annual send out (throughput), it is globally positioned as the number one terminal. Also, in terms of cargo handling, it is considered as the busiest terminal of the world. The terminal handles about 66% of the LNG demand and about 40% of total gas requirement of the country.

MD & CEO, UNION BANK OF INDIA, VISITS LUCKNOW



Managing Director and CEO of Union Bank of India Ms. A Manimekhalai visited Lucknow on 06.07.2022. During her visit, as part of Corporate Social Responsibility (CSR) initiative of the Union Bank of India, she distributed School Kits for the school going children and Tricycles for differently abled persons, managed by a city-based NGO 'Adi Jyoti Seva Samiti'. 'Adi Jyoti Seva Samiti' is a non-government organization which works in the field of women empowerment, social welfare and providing education to poor and helpless children.

Ms. A Manimekhalai appreciated the noble works of the organization and told that the presence of such organization is necessary to maintain social balance in the society. At the same time, she provided information about various CSR initiatives being done by the bank for all sections of the society and emphasized on the prompt delivery of banking services to the customers. She also reviewed the business of various Zones with the Senior Bank Officials and share the future business strategy. The program was attended by the Chief General Managers Mr. SK Mohapatra, Mr. C M Minocha, Mr. Yogendra Singh, General Manager Mr. R. Viswesvaran, from Central Office Mumbai, Mr. Sumit Srivastava, Field General Manager of Lucknow Zone along with other Senior officials of Bank.

VINOD JAISWAL JOINS AS CHIEF GENERAL MANAGER, SBI, CHANDIGARH CIRCLE

Vinod Jaiswal has taken charge as Chief General Manager of State Bank of India Chandigarh Circle which comprises Bank's operations in the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and UTs of Chandigarh, Jammu & Kashmir and Ladakh, with 2000+ Branches/ Offices and 20000 staff of the Bank. The SBI Chandigarh Circle serves 2.74 crore customers with more than 3.85 crore customer accounts across these three states and three UTs.

GACL AND NTPC RENEWABLE ENERGY LTD. (NTPC-REL) SIGNS MoU TO COLLABORATE IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY AND GREEN CHEMICALS

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (GACL) and NTPC Renewable Energy Limited (NTPC REL), a wholly owned subsidiary of NTPC Limited have signed Memorandum of Understanding (MoU) on 6th July 2022 at New Delhi to explore the business opportunities of mutual interest in the areas of sourcing of renewable power having optimum mix of solar, wind and other clean energy including energy storage solutions to the extent of about 100 MW, as required for the operations and manufacturing of GACL at Vadodara Complex and/or Dahej Complex or any of its other Complexes and to jointly work on synthesizing Green Chemicals such as Methanol and Ammonia for captive use by GACL using Hydrogen and CO2 available at GACL. The MoU was signed by Shri Harshad R Patel, IAS, Managing Director, GACL and Shri Mohit Bhargava, Chief Executive Officer, NTPC REL.

This is a first-of-its-kind novel initiative between leading CPSE and State Government Promoted Company to support country's commitment to achieve renewable energy targets and reduce greenhouse emissions.

JNPA FELICITATES OUTSTANDING CONTRIBUTION FROM VARIOUS STAKEHOLDERS OF THE PORT

Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), India's best performing Port, conducted JNPA 33rd Annual Awards on July 5, 2022, at the Maritime Public-Private-Partnership Conclave. Hon'ble Shri Shripad Naik, Minister of State for Ports, Shipping and Waterways & Tourism, Government of India was the guest of honor for the award ceremony. JNPA felicitated the exceptional work of stakeholders, terminal operators, and shipping lines towards the growth of JNPA in the presence of Shri Sanjay Sethi, IAS, Chairman, JNPA, Shri Unmesh Sharad Wagh, IAS, Dy. Chairman, JNPA, and all the HoDs and stakeholders of JNPA. Hon'ble Shri Shripad Naik, Union Minister of State for Ports, Shipping and Waterways & Tourism, Government of India congratulated the winners and shed the light on JNPA's contribution to the nation's economic growth. Shri Sanjay Sethi, IAS, Chairman, JNPA, applauded the JN Port award winners and highlighted their contribution to the port's development. He stated, "My best wishes to everyone who has won an award today across different categories."